

अपठित गद्यांश

दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

एक बार टोपियों का एक व्यापारी टोपियाँ बेचने शहर जा रहा था। वह रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। उसी पेड़ पर बहुत सारे बन्दर रहते थे। जब वह सो कर उठा तो उसकी नज़र अपनी खाली टोकरी पर पड़ी। तभी उसने पेड़ पर बंदरों को टोपियाँ पहने देखा। टोपी वाले ने एक पत्थर उठाकर बंदरों पर फेंका तो उन्होंने भी उस पर फल फेंके। तभी टोपीवाले को एक उपाय सूझा। उसे याद आया कि बंदरों को नकल करने की आदत होती है, उसने अपने सिर पर रखी टोपी उतार कर नीचे फेंकी। उसी तरह बंदरों ने भी अपनी-अपनी टोपियाँ फेंक दीं। टोपीवाले ने सारी टोपियाँ उठाई और चल दिया।

क) टोपीवाले की टोपियाँ कौन ले गया?

ख) टोपीवाले ने बंदरों पर क्या फेंका?

ग) सामान लय वाले शब्द लिखिए-

ताली - अन्दर -

घ) विपरीत शब्द लिखिए -

• ऊपर - खरीदने

- _____

ड) वाक्य बनाएं-

1) नकल - _____

2) पत्थर - _____

च) संज्ञा शब्द छाँटकर लिखें-



अपठित गद्यांश

दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

रविवार को सबकी छुट्टी होती है। सब आराम करते हैं। एक बार सूरज ने सोचा ,”क्यों न आज मैं भी छुट्टी मनाऊँ।” यह सोचकर वह आकाश से अचानक गायब हो गया। सब लोग, पेड़ -पौधे, जीव-जन्तु परेशान हो गए। सबको परेशान देखकर सूरज को दया आ गई। उसने सोचा आज का दिन तो मेरे नाम पर रखा गया है - ‘रविवार’। यह लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं ,मुझे भी इनका ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इन्हें और परेशान नहीं करूँगा। यह सोचते ही सूरज दोबारा चमकने लगा । सब खुश हो गए।

क) पेड़ -पौधे और जीव-जन्तु परेशान क्यों हो गए?

ख) सूरज दोबारा क्यों चमकने लगा?

ग) समान लय वाले शब्द लिखें -


दमकने - _____ काम - _____

घ) विपरीत शब्द लिखें-

उजाला - _____ नाराज़ - _____

ड) कौन सा दिन सूरज के नाम पर रखा गया है ?


च) नाम वाले शब्द छाँटकर लिखें-



अपठित गद्यांश

दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

एक बंदर बहुत शरारती था | वह लोगों के घरों में जाकर बहुत उधम मचाता था | किसी के बर्तन उठाकर ले जाता था , तो किसी का मुँह नोच लेता था | लोग उस बंदर की शरारतों से बहुत परेशान थे | एक दिन उसने पानी से भरा एक बर्तन देखा | वह नहीं जानता था कि उसमें गरम पानी था | जैसे ही उसने बर्तन उठाया , गरम पानी उसपर गिर गया | वह दर्द से चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया |



(क) बंदर कैसा था ?

(ख) बंदर लोगों को कैसे तंग करता था ?

(ग) एक दिन बंदर ने क्या देखा ?

(घ) बर्तन उठाते ही क्या हुआ ?

(ङ) कोई चार नाम वाले शब्द ढूँढकर लिखिए -

(च) दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द ढूँढकर लिखिए -

रात - _____ ठंडा - _____

